

मुस्लिम छात्र ने जीती भगवद गीता पर क्विज प्रतियोगिता



बैंगलुरु में इस्कॉन के द्वारा आयोजित भगवद गीता पर क्विज प्रतियोगिता में एक मुस्लिम लड़के ने पहला पुरस्कार जीता है. 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले शेख मोहिउद्दीन ने ये पुरस्कार हासिल किया. वो सुभाष मेमोरियल इंग्लिश हाय स्कूल में पढ़ाई करते हैं. उनका कहना है कि सभी धर्म एक हैं. उनके शिक्षक का कहना है कि मोहिउद्दीन कई इंटर स्कूल कॉम्पटीशन जीत चुका है. लेकिन, ये प्रतियोगिता जीतना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है।

शेख मोहिउद्दीन का कहना है कि इस प्रतियोगिता में 'उन्होंने मुझसे भगवान कृष्ण की जिंदगी और उनके उपदेशों को लेकर सवाल पूछे. मुझे सभी सवालों के जवाब पता थे. सभी धार्मिक ग्रंथ सिखाता है कि माता-पिता और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. उससे ही जिंदगी सफल होती है. मुझे खुशी है कि मैंने अपने माता-पिता का नाम रौशन किया.' उनकी मां साहिबा मोहम्मदी ने कहा- 'हम लोग काफी खुश हैं. हम उसके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं. उसे सभी धर्मों के बारे में पता होना चाहिए.

शेख मोहिउद्दीन ने बताया कि उसकी सफलता में शिक्षकों और बाकी छात्रों का बहुत बड़ा हाथ है. वहीं स्कूल की प्रिंसिपल बहार-ए-जहां नेका कहना था – 'सभी को एक-दूसरे के धर्म को इज्जत देनी चाहिए और उनकी परंपराओं को समझना चाहिए. मुस्लिम छात्र ने गीता क्विज जीता, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. मुझे छात्र के लिए बहुत खुश हूं.'

क्विज जीतने के बाद मोहिउद्दीन ने कहा- 'मुझे धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोग पसंद नहीं हैं. सभी धर्म एक हैं. आजादी से पहले हम सभी शांति से देश में रहते थे. चाहे गीता हो, बाइबल हो या फिर कुरान, सभी धार्मिक ग्रंथ एक ही चीज सिखाते हैं. हमें धर्म, जात या सामाजिक स्थिति में भेदभाव नहीं करना चाहिए. सभी एक समान हैं.'